

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh G
c ch j jh J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
z S s h

daya rAni-mOhanaM

In the kRti ‘daya rAni daya rAni’ – rAga mOhanaM, zrI tyAgarAja depicts how prahlAda felt after having had darzan of the Lord.

- P daya rAni daya rAni dAzarathI rAma
- C1 vivarimpa taramA raghuvIr(A)nandamu (daya)
- C2 talacitE mEn(e)lla pulakariJcenu rAma (daya)
- C3 kanukonan(A)ndamai kannIru niNDenu (daya)
- C4 AsiJcu vELa jagam(a)nta tRNam(A)yenu (daya)
- C5 caraNa kaugili vELa celagi mai maracenu (daya)
- C6 centan(u)NDaga nAdu cintalu tolagenu (daya)
- C7 marma hInula kUDa karmam(a)nan(ai)yyenu (daya)
- C8 tanakai zrI rAm(A)vatAram(e)ttitivO (daya)
- C9 nA(v)aNTi dAsula brOva veDalitivO (daya)
- C10 mUDu mUrtulak(A)di mUlamu nIvE rAma (daya)
- C11 zrI tyAgarAjuni celikADu nIvE rAma (daya)

Gist

O Lord rAma – son of King dazaratha! O Lord raghuvIra! O Lord rAma!
Let Your grace come, let Your grace come.
Is it possible to describe the bliss?
If I thought of You, it resulted in experiencing horripilation in the whole
body.

As a result of beholding You, experiencing bliss, tears (of joy) filled my eyes.

At the time of loving You, the whole world became insignificant.

At the time of embracing Your feet, I shone and lost body consciousness.

As You were near me all my worries vanished.

I considered even meeting those who are bereft of the knowledge of Your secret to be a curse.

Did You incarnate as Lord zrI rAma for my sake?

Did You proceed in order to protect devotees like me?

You are the Original Cause of even the Trinity.

You the most intimate friend of tyAgarAja.

Word-by-word Meaning

P O Lord rAma – son of King dazaratha (dAzarathI)! Let Your grace (daya) come (rAni), let Your grace (daya) come (rAni).

C1 O Lord raghuvIra! Is it possible (taramA) to describe (vivarimpa) the bliss (Anandamu) (raghuvIrAnandamu)?

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C2 O Lord rAma! If I thought (talacitE) of You, it resulted in experiencing horripilation (pulakariJcenu) in the whole (ella) body (mEnu) (mEnella);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C3 As a result of beholding (kanukonanu) You, having experienced bliss (Anandamai) (kanukonanAndamai), tears (kannIru) (of joy) filled (niNDenu) my eyes;

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C4 At the time (vELa) of loving (AsiJcu) You, the whole (anta) world (jagamu) (jagamanta) became insignificant (tRNamu) (literally a blade of grass) (tRNamAyenu);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C5 At the time (vELa) of embracing (kaugili) Your feet (caraNa), I shone (celagi) and lost body (mai) consciousness (maracenu);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C6 As You were (uNDaga) near me (centanu) (centanuNDaga) all my (nAdu) worries (cintalu) vanished (tolagenu);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C7 I considered (ananaiyyenu) (literally said) that even meeting (kUDa) those who are bereft (hInula) of the knowledge of Your secret (marma) to be a curse (karmamu) (literally unpleasant but unavoidable duty) (karmamanaiyyenu);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C8 Did You incarnate (avatAramu ettitivo) as Lord zrI rAma (rAmAvatAramettitivO) for my sake (tanakai)?

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C9 Did You proceed (veDalitivO) in order to protect (brOva) devotees (dAsula) (literally servants) like (aNTi) me (nA) (nAvaNTi)?

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C10 O Lord rAma! You (nIvE) are the Original (Adi) Cause (mUlamu) of even the Trinity (mUDu mUrtulaku) (mUrtulakAdi);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

C11 O Lord rAma! You (nIvE) the most intimate friend (celikADu) of tyAgarAja (tyAgarAjuni);

O Lord rAma – son of King dazaratha! Let Your grace come, let Your grace come.

Notes –

General – The order of the caraNas are as given in the book of TKG.

General – In the book of CR, 'rAma' is given at the end of all caraNas; In the book of TSV/AKG, 'rAma' is given at the end of all caraNas except 8, 9 and 10; in the book of TKG, 'rAma' is given at the end of caraNas 2, 10 and 11 only. This needs to be checked. Any suggestions ???

C2, C3, C4, C5 and C6 – In the book of TKG, the ending word of these caraNas are given as 'pulariJceni', 'niNDeni', tRNamaiyani', 'maraceni' and 'toligeni'; the correct ending – as given in the book of CR and TSV/AKG – should be 'pulariJcenu', niNDenu', tRNamAyenu', 'maracenu' and 'tolagenu'. This needs to be checked. Any suggestions ???

C7 – In the book of TKG the ending is given as 'karmamananaitini'. However, in the book of TSV/AKG, this is given as 'karmamananaiyyEni'. In my humble opinion, in keeping with other endings, this should be 'karmananaiyyenu'. This needs to be checked. Any suggestions ???

C7, C8, C9 and C10 – These caraNas are not found in the book of CR and ATK.

Devanagari

प. दय रानि दय रानि दाशरथी राम

च1. विवरिम्प तरमा रघुवी(रा)नन्दमु (दय)

च2. तलचिते मे(ने)ल्ल पुलकरिञ्चेनु राम (दय)

च3. कनुकोन(ना)नन्दमै कत्रीरु निण्डेनु (दय)

च4. आसिञ्चु वेळ जग(म)न्त तृण(मा)येनु (दय)

च5. चरण कौगिलि वेळ चेलगि मै मरचेनु (दय)

च6. चेन्त(नु)ण्डग नादु चिन्तलु तोलगेनु (दय)

- చ7. మర్మ హీనుల క్కూడ కర్మమన(న)య్యెను (దయ)
 చ8. తనకే శ్రీరా(మా)వతార(మె)త్తీతివో (దయ)
 చ9. నా(వ)ణ్ణి దాసుల బ్రోవ వెడలీతివో (దయ)
 చ10. మూడు మూర్తుల(కా)ది మూలము నీవే రామ (దయ)
 చ11. శ్రీత్యాగరాజుని చెలికాడు నీవే రామ (దయ)

English with Special Characters

- pa. daya rāni daya rāni dāśarathī rāma
 ca1. vivarimpa taramā raghuvi(rā)nandamu (daya)
 ca2. talacitē mē(ne)lla pulakariñcenu rāma (daya)
 ca3. kanukona(nā)nandamai kannīru niṇḍenu (daya)
 ca4. āsiñcu vēḷa jaga(ma)nta tṛṇa(mā)yenu (daya)
 ca5. caraṇa kaugili vēḷa celagi mai maracenu (daya)
 ca6. centa(nu)ṇḍaga nādu cintalu tolagenū (daya)
 ca7. marma hīnula kūḍa karmamana(na)yyenu (daya)
 ca8. tanakai śrīrā(mā)vatāra(me)ttitivō (daya)
 ca9. nā(va)ṇṇi dāsula brōva veḍalitivō (daya)
 ca10. mūḍu mūrtula(kā)di mūlamu nīvē rāma (daya)
 ca11. śrītyāgarājuni celikāḍu nīvē rāma (daya)

Telugu

- ప. దయ రాని దయ రాని దాశరథీ రామ
 చ1. వివరిమ్మ తరమా రఘువీ(రా)నందము (దయ)
 చ2. తలచితే మే(నె)ల్ల పులకరించెను రామ (దయ)
 చ3. కనుకొన(నా)నందమై కన్నీరు నిణ్ణెను (దయ)
 చ4. ఆసిచ్చు వేళ జగ(మ)న్త తృణ(మా)యెను (దయ)
 చ5. చరణ కాగిలి వేళ చెలగి మై మరచెను (దయ)
 చ6. చెన్త(ను)ణ్ణగ నాదు చిన్తలు తొలగెను (దయ)
 చ7. మర్మ హీనుల కూడ కర్మమన(న)య్యెను (దయ)
 చ8. తనకై శ్రీరా(మా)వతార(మె)త్తీతివో (దయ)

- చ9. నా(వ)ణ్ణి దాసుల బ్రోవ వెడలితివో (దయ)
- చ10. మూడు మూర్తుల(కా)ది మూలము నీవే రామ (దయ)
- చ11. శ్రీత్యాగరాజుని చెలికాడు నీవే రామ (దయ)

Tamil

- ప. త³య రాని త³య రాని తా³సరతీ² రామ
- స1. వివరింప తరమా రకు⁴వీ(రా)నంత³మ్ర (త³య)
- స2. తలసితే మే(నె)ల్ల పులకగిం(సె)ను రామ (త³య)
- స3. కనుకొన(నా)నంత³మే కన్ఱీ³రు నిన్ఱె³ను (త³య)
- స4. ఆ³సిం(స) వేల జక³(మ)ంత త³రుణ(మా)యె³ను (త³య)
- స5. సరణ కెలకి³లి వేల సెలకి³ మే మరసె³ను (త³య)
- స6. సెంత(ను)ండ³క³ నాతు³ సింత³లు తొలకె³ను (త³య)
- స7. మ³ం వు³లుల కు³డ³ క³ంమన(న)య³యె³ను (త³య)
- స8. తనకె పు³రీ(మా)వతార(మె)త్తి³తివో (త³య)
- స9. నా(వ)ణ్ణి తా³సుల ప³రోవ వె³లితివో (త³య)
- స10. మ³ం³ మ³ం³తుల(కా)తి³ మ³లమ³ నీ³వే రామ (త³య)
- స11. పు³త³యాక³రాజుని సెలికా³ం³ నీ³వే రామ (త³య)

తయె వర³ం³; తయె వర³ం³, తసరతన్ పుత³ల్³వా, ఇరామా!

1. వివరికక ఇయలుమా, ఇరకువీరా! ఆ³నంత³తి³నె?
2. (ఎ³నె) ని³నెత్తాలే మే³ని పు³ల్ల³గి³త్త³తు, ఇరామా!
3. (ఎ³నె) కం³ం³కొ³గ్గ, ఆ³నంత³మ³దె³న్తు, కం³ం³రీ³ ని³రె³న్తు;
4. (ఎ³నె) కా³మ³ం³ వే³నె, ఎ³లక³మె³ల్ల³ం³ తు³ం³పా³న³తు;
5. తి³రు³వ³క³నె అ³నె³త్త³వ³య³ం, ఓ³గి³న్తు, మె³య³ం³మ³ర³న్తే³న్;
6. (నీ) అ³రు³కి³లి³రు³క³క, ఎ³న³తు తు³య³ర³గ్గ³ తొ³లె³న్త³నె;
7. (ఎ³న³తు) మ³ం³ం³ అ³రి³యా³త³వ³రె³క³ కు³ం³త³లు³ం³ క³ం³మ³మె³న్³రే³న్;
8. ఎ³న³క³కా³ ఇ³రా³మ³నా³క³ అ³వ³తి³త్తా³యో?
9. ఎ³న³నె³ పో³న్³ర తొ³ం³ం³క³నె³క³ కా³క³ ఎ³ం³న్³త³రు³గి³నా³యో?
10. మ³ం³ం³ం³త్తి³క³గ్గ³క³ం³ం³ ఆ³తి³మ³ల³ం³ నీ³యే, ఇరామా!
11. తి³యా³క³రా³స³ని³న్³ ఎ³న్³ర³ న³ం³ం³న³ నీ³యే, ఇరామా!
తయె వర³ం³; తయె వర³ం³, తసరతన్ పుత³ల్³వా, ఇరామా!

క³ం³ం³ - వి³ం³ం³పా³త³ సె³య³ల్

Kannada

- ಪ. ದಯ ರಾನಿ ದಯ ರಾನಿ ದಾಶರಥೀ ರಾಮ
ಚಗ. ವಿವರಿಮ್ಪ ತರಮಾ ರಘುವೀ(ರಾ)ನನ್ದಮು (ದಯ)
ಚ೨. ತಲಚಿತೇ ಮೇ(ನೆ)ಲ್ಲ ಪುಲಕರಿಇಚ್ಚಿನು ರಾಮ (ದಯ)
ಚ೩. ಕನುಕೊನ(ನಾ)ನನ್ದಮೈ ಕನ್ನೀರು ನಿಣ್ಣೆನು (ದಯ)
ಚ೪. ಆಸಿಇಚ್ಚ ವೇಳ ಜಗ(ಮ)ನ್ದ ತೃಣ(ಮಾ)ಯೆನು (ದಯ)
ಚ೫. ಚರಣ ಕೌಗಿಲಿ ವೇಳ ಚೆಲಗಿ ಮೈ ಮರಚೆನು (ದಯ)
ಚ೬. ಚಿನ್ತ(ನು)ಣ್ಣಗೆ ನಾದು ಚಿನ್ತಲು ತೊಲಗೆನು (ದಯ)
ಚ೭. ಮರ್ಮ ಹೀಸುಲ ಕೂಡ ಕರ್ಮಮನ(ನ)ಯ್ಯೆನು (ದಯ)
ಚ೮. ತನಕೈ ಶ್ರೀರಾ(ಮಾ)ವತಾರ(ಮೆ)ತ್ತಿತಿವೋ (ದಯ)
ಚ೯. ನಾ(ವ)ಣ್ಣಿ ದಾಸುಲ ಬ್ರೋವ ವೆಡಲಿತಿವೋ (ದಯ)
ಚಗ೦. ಮೂಡು ಮೂರುಲ(ಕಾ)ದಿ ಮೂಲಮು ನೀವೇ ರಾಮ (ದಯ)
ಚಗ೧. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಚೆಲಿಕಾಡು ನೀವೇ ರಾಮ (ದಯ)

Malayalam

೧. ദയ രാനി ദയ രാനി ദാശരഥീ രാമ
೨1. വിവരിമ്ಪ തരമാ രഘുവീ(രാ)നന്ദമു (ദയ)
೨2. തലചിതേ മേ(നെ)ല്ല പുലകരിഞ്ഞിനു രാമ (ദയ)
೨3. കനുകൊന(നാ)നന്ദമൈ കന്നീരു നിണ്ണെനു (ദയ)
೨4. ആസിഞ്ചു വേള ജഗ(മ)ന്ദ തൃണ(മാ)യെനു (ദയ)
೨5. ചരണ കുഗിലി വേള ചെലഗി മൈ മരചെനു (ദയ)
೨6. ചെന്ത(നു)ണ്ണഗ നാദു ചിന്തലു തൊലഗെനു (ദയ)
೨7. മർമ ഹീനൂല കൂഡ കർമ്മന(ന)യ്യെനു (ദയ)
೨8. തനകൈ ശ്രീരാ(മാ)വതാര(മെ)ത്തിതിവോ (ദയ)
೨9. നാ(വ)ണ്ടി ദാസുല ബ്രോവ വെഡലിതിവോ (ദയ)
೨10. മൂഡു മൂർതുല(കാ)ദി മൂലമു നീവേ രാമ (ദയ)
೨11. ശ്രീത്യാഗരാജുനി ചെലികാഡു നീവേ രാമ (ദയ)

Assamese

- প. দয় বানি দয় বানি দাশৰথী বাম
চ১. বিৱৰিম্প তৰমা ৰঘুৱী(ৰা)নন্দমু (দয়) (vivarimpa)
চ২. তলচিত্তে মে(নে)ল্ল পুলকৰিঞ্চেণু বাম (দয়)

- চ৩. কনুকোন(না)নন্দমৈ কন্নীৰু নিগুেনু (দয়)
- চ৪. আসিঞ্চুও বেল জগ(ম)স্ত তৃণ(মা)য়েনু (দয়)
- চ৫. চৰণ কৌগিলি বেল চলগি মৈ মৰচেণু (দয়)
- চ৬. চেস্ত(নু)গুগ নাদু চিস্তলু তোলগেনু (দয়)
- চ৭. মৰ্ম হীনুল কূড কৰ্মমন(ন)য়েনু (দয়)
- চ৮. তনকৈ শ্ৰীৰা(মা)বতাব(মে)ত্তিতিবো (দয়)
- চ৯. না(ৰে)ণ্টি দাসুল বোৱ বেডলিতিবো (দয়)
- চ১০. মূড়ু মূৰ্তুল(কা)দি মূলমু নীৰে ৰাম (দয়)
- চ১১. শ্ৰীঅগৰাজুনি চেলিকাডু নীৰে ৰাম (দয়)

Bengali

- প. দয় ৱানি দয় ৱানি দাশৱথী ৱাম
- চ১. বিবৰি□ তৰমা ৱঘুবী(ৱা)নন্দমু (দয়) (vivarimpa)
- চ২. তলচিত্তে মে(নে)ল্ল পুলকৰিঞ্চুওনু ৱাম (দয়)
- চ৩. কনুকোন(না)নন্দমৈ কন্নীৰু নিগুেনু (দয়)
- চ৪. আসিঞ্চুও বেল জগ(ম)স্ত তৃণ(মা)য়েনু (দয়)
- চ৫. চৰণ কৌগিলি বেল চলগি মৈ মৰচেণু (দয়)
- চ৬. চেস্ত(নু)গুগ নাদু চিস্তলু তোলগেনু (দয়)
- চ৭. মৰ্ম হীনুল কূড কৰ্মমন(ন)য়েনু (দয়)
- চ৮. তনকৈ শ্ৰীৰা(মা)বতাব(মে)ত্তিতিবো (দয়)
- চ৯. না(ব)ণ্টি দাসুল বোৱ বেডলিতিবো (দয়)
- চ১০. মূড়ু মূৰ্তুল(কা)দি মূলমু নীৰে ৱাম (দয়)
- চ১১. শ্ৰীঅগৰাজুনি চেলিকাডু নীৰে ৱাম (দয়)

Gujarati

- প. দয় ৱানি দয় ৱানি দাশৱথী ৱাম
- খ৭. বিবৰিম্প তৰমা ৱঘুবী(ৱা)নন্দমু (দয়)
- খ২. তলচিত্তে মে(নে)ল্ল পুলকৰিঞ্চুওনু ৱাম (দয়)

୧୩. କନୁକାଁନ(ନା)ନନ୍ଦମୈ କଞ୍ଜୀରୁ ନିଝଡ଼ିନ୍ତୁ (ଝୟ)
 ୧୪. ଆସିଞ୍ଚୁ ଦେଞ୍ଚୁ ଞ୍ଚୁ(ମ)ନ୍ତ ତୃଝା(ମା)ଧିନ୍ତୁ (ଝୟ)
 ୧୫. ଧରଝା କାଁଗିଝି ଦେଞ୍ଚୁ ଧିଲଗି ମୈ ମରଧିନ୍ତୁ (ଝୟ)
 ୧୬. ଧିନ୍ତ(ନ୍ତୁ)ଝାଗ ନାଝୁ ଧିନ୍ତଲୁ ତାଁଲଗିନ୍ତୁ (ଝୟ)
 ୧୭. ମର୍ମ ଝିନ୍ତୁଲ କୁଝ କର୍ମମନ(ନ)ଧିନ୍ତୁ (ଝୟ)
 ୧୮. ତନକୈ ଶ୍ରୀରା(ମା)ଦତାର(ମି)ଧିଧିଧି (ଝୟ)
 ୧୯. ନା(ଦ)ଝିଟ ଝାସୁଲ ଝାଦ ଦିଧିଧିଧି (ଝୟ)
 ୧୧୦. ମୁଝୁ ମୁର୍ତ୍ତୁଲ(ଝା)ଝି ମୁଲମୁ ନିଦେ ରାମ (ଝୟ)
 ୧୧୧. ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଞ୍ଚୁନି ଧିଧିଧିଧି ନିଦେ ରାମ (ଝୟ)

Oriya

୧. ଦୟ ରାଧି ଦୟ ରାଧି ଦାଶରଥୀ ରାମ
 ୧୧. ଝିଝିଝି ଝରମା ରଝୁଝା(ରା)ନଝମୁ (ଦୟ)
 ୧୨. ଝଲଝିଝେ ମେ(ନେ)ଲୁ ଝୁଲଝିଝେନ୍ତୁ ରାମ (ଦୟ)
 ୧୩. କନ୍ତୁକୋନ(ନା)ନଝମୈ କନ୍ତୁରୁ ନିଝେନ୍ତୁ (ଦୟ)
 ୧୪. ଆସିଝୁ ଝେଲ ଝଗ(ମ)କ୍ତ ଝୁଶା(ମା)ଧେନ୍ତୁ (ଦୟ)
 ୧୫. ଝରଶ କୈଗିଲି ଝେଲ ଝେଲଗି ମୈ ମରଝେନ୍ତୁ (ଦୟ)
 ୧୬. ଝେକ୍ତ(ନ୍ତୁ)ଝଗ ନାଦୁ ଝିକ୍ତଲୁ ଝୋଲଗେନ୍ତୁ (ଦୟ)
 ୧୭. ମର୍ମ ହୀନ୍ତୁଲ କୁଝ କର୍ମମନ(ନ)ଧେନ୍ତୁ (ଦୟ)
 ୧୮. ଝନକୈ ଶ୍ରୀରା(ମା)ଝତାର(ମେ)ଝିଧିଝୋ (ଦୟ)
 ୧୯. ନା(ଝ)ଝି ଦାସୁଲ ଦ୍ରୋଝ ଝେକ୍ତଲିଧିଝୋ (ଦୟ)
 ୧୧୦. ମୁଝୁ ମୁର୍ତ୍ତୁଲ(କା)ଝି ମୁଲମୁ ନିଝେ ରାମ (ଦୟ)
 ୧୧୧. ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଝୁନି ଝେଲିକାଦୁ ନିଝେ ରାମ (ଦୟ)

Punjabi

୧. ଦୟ ରାଧି ଦୟ ରାଧି ଦାଶରଥୀ ରାମ
 ୧୧. ଦିଦିରମଧ ଝରମା ରଝୁଦି(ରା)ନନଦମୁ (ଦୟ)
 ୧୨. ଝଲଝିଝେ ମେ(ନେ)ଲଲ ଝୁଲଝିଝେନ୍ତୁ ରାମ (ଦୟ)
 ୧୩. କନ୍ତୁକୋନ(ନା)ନନଦମୈ କନ୍ତୁରୁ ନିଝେନ୍ତୁ (ଦୟ)

- ਚੳ. ਆਸਿਵਚੁ ਵੇਲ ਜਗ(ਮ)ਨਤ ਤ੍ਰਿਣ(ਮਾ)ਯੇਨੁ (ਦਯ)
- ਚੳ. ਚਰਣ ਕੌਗਿਲਿ ਵੇਲ ਚੇਲਗਿ ਮੈ ਮਰਚੇਨੁ (ਦਯ)
- ਚੳ. ਚੇਨਤ(ਨੁ)ਣਡਗ ਨਾਦੁ ਚਿਨਤਲੁ ਤੋਲਗੇਨੁ (ਦਯ)
- ਚੳ. ਮਰਮ ਹੀਨੁਲ ਕੂਡ ਕਰਮਮਨ(ਨ)ਯਯੇਨੁ (ਦਯ)
- ਚੳ. ਤਨਕੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾ(ਮਾ)ਵਤਾਰ(ਮੇ)ਤਿਤਤਿਵੋ (ਦਯ)
- ਚੳ. ਨਾ(ਵ)ਇਟ ਦਾਸੁਲ ਬ੍ਰੋਵ ਵੇਡਲਿਤਿਵੋ (ਦਯ)
- ਚੳ੦. ਮੂਡੁ ਮੂਰਤੁਲ(ਕਾ)ਦਿ ਮੂਲਮੁ ਨੀਵੇ ਰਾਮ (ਦਯ)
- ਚੳ੧. ਸ਼੍ਰੀਤਯਾਗਰਾਜੁਨਿ ਚੇਲਿਕਾਡੁ ਨੀਵੇ ਰਾਮ (ਦਯ)